

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 नवंबर 2022

प्रश्न -1

वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ने किस संगठन में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD)के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है?

- A) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- B) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- C) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- D) ऑयल इंडिया लिमिटेड

सही उत्तर: A

वेत्सा राम कृष्ण गुप्ता ने अरुण कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

प्रश्न-2

निम्नलिखित में से किसे देश के सिविल 20 (C20) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) गुरुदेव श्री श्री रविशंकर
- B) माता अमृतानंदमयी देवी
- C) सद्गुरु जग्गी वासुदेव
- D) स्वामीजी अमृतस्वरूपानंद पुरी

सही उत्तर: B

भारत सरकार ने माता अमृतानंदमयी देवी (अम्मा) को देश के सिविल 20 (C20) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो 20 के समूह (G20) का एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 नवंबर 2022

प्रश्न-3

पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दण्ड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था?

- A) 01 नवंबर
- B) 02 नवंबर
- C) 30 अक्टूबर
- D) 31 अक्टूबर

सही उत्तर: B

पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दण्ड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस (IDEI) प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति के स्तर पर ध्यान आकर्षित करता है, जो विश्व स्तर पर बहुत अधिक है।

प्रश्न-4

रक्षा मंत्रालय ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर (J&K) में 'शौर्य दिवस' समारोह का आयोजन कब किया?

- A) 26 अक्टूबर
- B) 25 अक्टूबर
- C) 24 अक्टूबर
- D) 27 अक्टूबर

सही उत्तर: D

जम्मू और कश्मीर (J&K) ने 27 अक्टूबर, 2022 को 1947 में बडगाम हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के हवाई अभियानों के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 'शौर्य दिवस' मनाया, जिसने स्वतंत्र भारत की पहली नागरिक-सैन्य जीत सुनिश्चित की।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 नवंबर 2022

प्रश्न-5

विश्व सोरायसिस दिवस कब मनाया गया?

- A) 26 अक्टूबर
- B) 25 अक्टूबर
- C) 24 अक्टूबर
- D) 29 अक्टूबर

सही उत्तर: D

29 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व सोरायसिस दिवस, सोरायसिस और सोरियाटिक गठिया से पीड़ित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष की थीम "अनलोडिंग सोरियाटिक डिजीज" है।

प्रश्न-6

अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया?

- A) 30 अक्टूबर
- B) 29 अक्टूबर
- C) 28 अक्टूबर
- D) 27 अक्टूबर

सही उत्तर: B

हर साल, इंटरनेट के रचनाकारों और इसे बेहतर बनाने के लिए काम करने वालों को सम्मानित करने के लिए दुनिया भर में 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 नवंबर 2022

प्रश्न-7

"दिल्ली यूनिवर्सिटी: सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस इयर्स" नामक एक नई पुस्तक किसनिम्नलिखित लेखकके द्वारा लिखी गई थी?

- A) अमिताभ बच्चन
- B) हरदीप सिंह पुरी
- C) किरण रिजिजू
- D) शशि थरूर

सही उत्तर: B

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने "दिल्ली यूनिवर्सिटी: सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस इयर्स" नामक एक नई पुस्तक लिखी है।

प्रश्न-8

भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ मेगा 'युद्ध अभ्यास' सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) फ्रांस
- C) UK
- D) US

सही उत्तर: D

'युद्ध अभ्यास' के संयुक्त सैन्य अभ्यास के 15वें दौर के हिस्से के रूप में, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना उत्तराखंड में 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच मेगा सैन्य अभ्यास करने वाले हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 नवंबर 2022

प्रश्न-9

दिल्ली छावनी में 17 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय सेना के साथ सहयोग किया है?

- A) अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
- B) लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड
- C) ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड
- D) टाटा पावर लिमिटेड

सही उत्तर: D

पावर डिस्कॉम टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) ने दिल्ली छावनी में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए 17 फास्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ सहयोग किया है।

प्रश्न-10

भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा घोषित इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए सुरक्षा परीक्षणों की एक सूची _____ से अनिवार्य होगी।

- A) अप्रैल 2023
- B) मार्च 2023
- C) जनवरी 2023
- D) दिसंबर 2022

सही उत्तर: A

भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने सुरक्षा परीक्षणों की एक सूची की घोषणा की है जो विभिन्न EV प्रचार योजनाओं के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अप्रैल 2023 से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माताओं के लिए अनिवार्य होगा।